



IB - ACIO

Intelligence Bureau

Assistant Central Intelligence Officer

Ministry of Home Affairs

भाग - 6

गणित

विषय शुची

1. संख्यात्मक	1
2. संख्या पद्धति	11
3. ल.स.प. एवं म.स.प.	27
4. प्रतिशतता	34
5. औंसत	40
6. शाङ्केदारी	46
7. लाभ - हानि	50
8. बट्टा	57
9. मिश्रण	61
10. शाधारण व्याज	68
11. चक्रवृद्धि व्याज	76
12. अनुपात - अमानुपात	81
13. आयु	90
14. कार्य और समय	96
15. पाइप और टकी	105
16. चाल, समय और दूरी	110
17. नाव और धारा	124
18. द्विघात अमीकरण	130
19. प्रायिकता	137
20. क्रमचय और संचय	144
21. क्षेत्रमिति	152
22. ऊर्ध्वमिति	170
23. संख्यात्मक अभियोग्यता	207
24. लघुगणक	219

સરળીકરણ (Simplification)


Type – (1)



BODMAS पर आधारित प्रश्न

क्षरलीकरण के छंगर्गत हम दिए गये आंकड़ों को क्षरल रूप में प्रदर्शित करते तैसे कि आंकड़े अनन्न में, दशमलव में, बट्टे में घात में तथा Mathematical operation को हल करके या रूप बदल के किया जाता है।

- यदि कुछ संख्या पर भिन्न-भिन्न प्रकार के operation दिये हो तो हम उसे कैसे हल करे की प्रश्न का उत्तर तभी आये उसके लिये एक Rule होता है जिसे हम VBODMAS कर Rule कहते हैं।
 - हम पहले कौनसा operation को यह Vbodmas का Rule तय करता है।



- इन दोनों गणितीय क्रियाओं में शब्दों पहले V हैं जिनका मतलब Viniculum (ऐखा कोष्ठक) है। यदि प्रश्न में ऐखा कोष्ठक है तो शर्वप्रथम उसे हल करेंगे और उसमें फिर (BODMAS) Rule कार्य करेगा।
 - द्वितीय स्थान पर B (Bracket) मतलब कोष्ठक है जो निम्न हो सकते हैं-
 1. छोटा कोष्ठक ()
 2. मंडला कोष्ठक { }
 3. बड़ा कोष्ठक []
 - शब्दों पहले छोटा कोष्ठक, फिर मंडला कोष्ठक और उसके बाद बड़ा कोष्ठक हल किया जाता है।
 - तृतीय स्थान पर “O” है जो कि “of” या “order” से बना है, जिनका मतलब “गुणा” से या “का” से होता है।

- चतुर्थ स्थान पर “D” है जिसका मतलब Division है, दिए गये व्यंजन में भिन्न-भिन्न क्रियाओं में लाइट पहले आग करते यदि दिया है तो।
 - पंचम स्थान पर “m” है जिसका मतलब “multiplication” है, दिये गए व्यंजन में “Division” के बाद multiplication (गुणा) करेंगे।
 - छठा स्थान “A” रखता है जो Addition (जोड़ा) से संबंधित है Division-multiplication के बाद Addition क्रिया होती है।
 - सप्तम स्थान पर “S” है जो Subtraction से बना है, इस प्रकार आग → गुणा → जोड़ → घटाव → क्रिया क्रमशः घटित होती है।

उदाहरण $\rightarrow 8-[7-(6-(5-4-1))]$ का मान क्या होगा-

यहाँ VBODMAS के इतना? -

पथम चरण \rightarrow द्वितीय कोषक \rightarrow $4-1 = 3$ होता

द्वितीय चर्या \rightarrow दोहरा कोषक \rightarrow (5-3) = 2 द्वया

दूसरी वर्षा → संताना दीपक → (6.2) = 4 दीपा

ଶୁଣାଯ ଦରଖାଁ ଡାଳିଲା କାହିଁଥିଲା $\Rightarrow (0-2) = 4$ ହାନି
 ୧୦୮ ୧୦୮ ୧୦୮ ୧୦୮ $\Rightarrow [7-1] = 6$ ୧୦୮ ୧୦୮

यतु य यरण बडा काल

ଅବେଦନ ହୁଏ ୮-୩ = ୫

દ્વારા ➡ અનુભૂતિ -

$$15 \times 12 + 16 \div 8 - 14 = ?$$

- (A) 172 (B) 180
(C) 168 (D) 165

हलः—

$$15 \times 12 + 16 \div 8 - 14$$

I Step → Division → $15 \times 12 + \boxed{16 \div 8} - 14$

$$= 15 \times 12 + 2 - 14$$

II Step → Multiplication → $15 \times 12 + 2 - 14$

$$= 180 + 2 - 14$$

III Step → Addition → $180 + 2 - 14$

$$= 182 - 14$$

I Step → Subtraction → $182 - 14$

$$= 168$$

अतः विकल्प (C) ठही है।

(1) $34 \div 17 \times 2 + 4$ का मान क्या है ?

- (a) 8 (b) 16
- (c) 5 (d) 6

उत्तर - (a)

व्याख्या -

$$\begin{aligned} 34 \div 17 \times 2 + 4 &= \frac{34}{17} \times 2 + 4 \\ &= 2 \times 2 + 4 \\ &= 4 + 4 \Rightarrow 8 \end{aligned}$$

(2) $0.77777 + 0.7777 + 0.777 + 0.77 + 0.7 + 0.07$ के मान की गणना कीजिए ?

- (a) 3.86274 (b) 3.80247
- (c) 3.85274 (d) 3.87247

उत्तर - (d)

व्याख्या -

$$\begin{aligned} 0.77777 + 0.7777 + 0.777 + 0.77 + 0.7 \\ + 0.07 \end{aligned}$$

$$= 7(0.11111 + 0.1111 + 0.111 + 0.11 \\ + 0.1 + 0.01)$$

$$\begin{aligned} &= 7(0.54321 + 0.01) \\ &= 7(0.55321) \Rightarrow 3.87247 \end{aligned}$$

(3) यदि $x[-2\{-4(-a)\}] + 5[-2\{-2(-a)\}] = 4a$, तो $x = ?$

- | | |
|--------|--------|
| (a) -2 | (b) -3 |
| (c) -4 | (d) -5 |

उत्तर - (b)

व्याख्या -

$$x[-2\{-4(-a)\}] + 5[-2\{-2(-a)\}] = 4a$$

$$x[\{-2 \times 4a\}] + [(-20a)] = 4a$$

$$x[(-8a)] - [20a] = 4a$$

$$-8ax = 20a + 4a$$

$$\therefore x = \frac{24a}{-8a} \Rightarrow -3$$

(4) $5 \cdot 9 - [8 - \{7 - (6 - 1)\}]$ को शरल कीजिए

- (a) 6 (b) 1
- (c) 7 (d) 3

उत्तर - (d)

व्याख्या -

$$9 - [8 - \{7 - (6 - 1)\}]$$

$$= 9 - [8 - \{7 - 5\}]$$

$$= 9 - [8 - 2]$$

$$= 9 - 6 = 3$$

(5) 13 यदि $3^x - 3^{x-1} = 486$ को x के लिए हल कीजिए।

- (a) 9 (b) 5
- (c) 6 (d) 7

उत्तर - (c)

व्याख्या -

$$3^x - 3^{x-1} = 486$$

$$3^x - \frac{3^x}{3} = 486$$

$$\frac{3^{x+1} - 3^x}{3} = 486$$

$$\frac{3^x(3-1)}{3} = 486$$

$$3^x \times \frac{2}{3} = 486$$

$$3^x = \frac{486 \times 3}{2} \Rightarrow 729$$

$$\text{या } 3^x = 3^6$$

घातों की तुलना करने पर

$$x = 6$$

(6) यदि $5\sqrt{5} \times 5^3 \div 5^{\frac{-3}{2}} = 5^{a+2}$ है तो, a का मान क्या है ?

- (a) 4 (b) 5
(c) 6 (d) 8

उत्तर - (a)

व्याख्या -

$$5\sqrt{5} \times 5^3 \div 5^{\frac{-3}{2}} = 5^{a+2}$$

$$\frac{5 \times 5^{\frac{1}{2}} \times 5^3}{5^{\frac{-3}{2}}} = 5^a \times 5^2$$

$$\therefore 5^a = \frac{(5)^{1+\frac{1}{2}+3}}{5^{\frac{-3}{2} \times 5^2}} = 5^{\frac{3}{2}+3+\frac{3}{2}-2} = 5^{3+1} = 5^4$$

$$\therefore 5^a = 5^4$$

घातों की तुलना करने पर $a = 4$

(7) यदि $5^{12} \times 125 \div 15625 = 3125 \times 25^?$ में ? का मान ज्ञात कीजिए ।

- (a) 4 (b) 3
(c) 2 (d) 1

उत्तर - (c)

व्याख्या -

$$5^{12} \times 125 \div 15625 = 3125 \times 25$$

$$= \frac{5^{12} \times 5^3}{5^6} = 5^5 \times (25)^?$$

$$\therefore 25^? = \frac{5^{12+3}}{5^6 \times 5^5} \Rightarrow \frac{5^{15}}{5^{11}}$$

$$25^? = 5^{15-11} \Rightarrow 5^4$$

$$25^? = (25)^2$$

दोनों पक्षों के आधार समान हैं इसलिए घातों भी समान होंगी। घातों की तुलना करने पर

$$\therefore ? = 2$$

Type - (2)

वर्गनितर तथा वर्गमूल



आधारित प्रश्न

Square and Square Root Table

Square	Square Root	Square	Square Root
$1^2=1$	$\sqrt{1}=1$	$16^2=256$	$\sqrt{256}=16$
$2^2=4$	$\sqrt{4}=2$	$17^2=289$	$\sqrt{289}=17$
$3^2=9$	$\sqrt{9}=3$	$18^2=324$	$\sqrt{324}=18$
$4^2=16$	$\sqrt{16}=4$	$19^2=361$	$\sqrt{361}=19$
$5^2=25$	$\sqrt{25}=5$	$20^2=400$	$\sqrt{400}=20$
$6^2=36$	$\sqrt{36}=6$	$21^2=441$	$\sqrt{441}=21$
$7^2=49$	$\sqrt{49}=7$	$22^2=484$	$\sqrt{484}=22$
$8^2=64$	$\sqrt{64}=8$	$23^2=529$	$\sqrt{529}=23$
$9^2=81$	$\sqrt{81}=9$	$24^2=576$	$\sqrt{576}=24$
$10^2=100$	$\sqrt{100}=10$	$25^2=625$	$\sqrt{625}=25$
$11^2=121$	$\sqrt{121}=11$	$26^2=676$	$\sqrt{676}=26$
$12^2=144$	$\sqrt{144}=12$	$27^2=729$	$\sqrt{729}=27$
$13^2=169$	$\sqrt{169}=13$	$28^2=784$	$\sqrt{784}=28$
$14^2=196$	$\sqrt{196}=14$	$29^2=841$	$\sqrt{841}=29$
$15^2=225$	$\sqrt{225}=15$	$30^2=900$	$\sqrt{900}=30$

- (8) यदि $3^{10} \times 27^2 = 9^2 \times 3^n$ हो, तो n का मान बताइए।
 (a) 10 (b) 12
 (c) 15 (d) 30

उत्तर - (b)

व्याख्या -

दिया है

$$3^{10} \times 27^2 = 9^2 \times 3^n$$

$$3^{10} \times (3^3)^2 = (3^2)^2 \times 3^n$$

$$\frac{3^{10} \times 3^6}{3^4} = 3^n$$

$$3^{12} = 3^n$$

घातों की तुलना करने पर

$$n = 12$$

- (9) निम्नलिखित प्रश्न में प्रथम-चिन्ह (?) के स्थान पर क्या आगा आहिए ?

$$31^{7.5} \div 31^{3/2} \times 31^{-3} = (\sqrt{31})^?$$

- (a) 9/2 (b) 6
 (c) 7/2 (d) 4

उत्तर - (b)

व्याख्या -

$$31^{7.5} \div 31^{3/2} \times 31^{-3} = (\sqrt{31})^?$$

$$\frac{31^{7.5-3}}{31^{3/2}} = (\sqrt{31})^?$$

$$\frac{31^{4.5}}{31^{1.5}} = (\sqrt{31})^?$$

$$31^{4.5-1.5} = (\sqrt{31})^?$$

$$31^3 = (\sqrt{31})^?$$

$$(\sqrt{31})^6 = (\sqrt{31})^?$$

घातांकों की तुलना करने पर

$$? = 6$$

- (10) यदि $(2^3)^2 = 4^x$ हो, तो 3^x किटके बराबर है ?
 (a) 3 (b) 6
 (c) 9 (d) 27

उत्तर - (d)

व्याख्या -

दिया है

$$(2^3)^2 = 4^x$$

$$(8)^2 = 4^x$$

$$64 = 4^x$$

$$(4)^3 = 4^x$$

दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर

$$x = 3$$

$$\therefore 3^x = 3^3$$

$$= 27$$

$$(11) \frac{0.0324 - 0.0121}{0.07}$$

- (a) 0.29 (b) 0.25
 (c) 0.30 (d) 0.32

उत्तर - (a)

व्याख्या -

$$= \frac{0.0324 - 0.0121}{0.07} = \frac{(0.18)^2 - (0.11)^2}{0.07}$$

$$\frac{(0.18 - 0.11)(0.18 + 0.11)}{0.07} = \frac{0.07 \times 0.29}{0.07}$$

$$= 0.29$$

$$(12) \frac{6.76 - 2.25}{1.1}$$

- (a) 5.1 (b) 4.1
 (c) 6.2 (d) 3.5

उत्तर - (b)

व्याख्या -

$$\frac{6.76 - 2.25}{1.1} = \frac{2.6^2 - 1.5^2}{1.1}$$

$$\frac{(2.6 - 1.5)(2.6 + 1.5)}{1.1} = \frac{1.1 \times 4.1}{1.1} = 4.1$$

Type - (3)

?गणित तथा वर्गमूल



आधारित प्रश्न

Cube of 1 to 20

$1^3 = 1$	$11^3 = 1331$
$2^3 = 8$	$12^3 = 1728$
$3^3 = 27$	$13^3 = 2197$
$4^3 = 64$	$14^3 = 2744$
$5^3 = 125$	$15^3 = 3375$
$6^3 = 216$	$16^3 = 4096$
$7^3 = 343$	$17^3 = 4913$
$8^3 = 512$	$18^3 = 5832$
$9^3 = 729$	$19^3 = 6859$
$10^3 = 1000$	$20^3 = 8000$

(13) यदि $\left(\frac{8}{125}\right)^{-4/3}$ को सरलीकृत कीजिए।

(a) $\frac{625}{16}$ (b) $\frac{625}{8}$
 (c) $\frac{625}{32}$ (d) $\frac{16}{625}$

उत्तर - (a)

व्याख्या -

$$\left(\frac{8}{125}\right)^{-4/3} = \left\{\left(\frac{2}{5}\right)^3\right\}^{-4/3}$$

$$\left(\frac{2}{5}\right)^{-4} = \left(\frac{5}{2}\right)^4 \Rightarrow \frac{625}{16}$$

$$(14) \frac{1.8 \times 1.8 \times 1.8 - 1.3 \times 1.3 \times 1.3}{1.8 \times 1.8 \times 1.8 \times 1.3 \times 1.3}$$

- | | |
|---------|---------|
| (a) 0.5 | (b) 0.6 |
| (c) 0.7 | (d) 0.8 |

उत्तर - (a)

व्याख्या -

$$\frac{1.8 \times 1.8 \times 1.8 - 1.3 \times 1.3 \times 1.3}{1.8 \times 1.8 \times 1.8 \times 1.3 \times 1.3}$$

$$\frac{1.8^3 - 1.3^3}{1.8^3 + 1.8 \times 1.3 + 1.3^2}$$

$$= \frac{(1.8 - 1.3)(1.8^2 + 1.8 \times 1.3 + 1.3^2)}{(1.8^2 + 1.8 \times 1.3 + 1.3^2)}$$

$$1.8 - 1.3 = 0.5$$

$$(15) (2.7^3 - 1.7^3) \div (2.7^2 + 2.7 \times 1.7 + 1.7^2)$$

- | | |
|---------|---------|
| (a) 2.0 | (b) 0.5 |
| (c) 1.0 | (d) 0.7 |

उत्तर - (c)

व्याख्या -

$$(2.7^3 - 1.7^3) \div (2.7^2 + 2.7 \times 1.7 + 1.7^2)$$

$$\frac{(2.7 - 1.7)(2.7^2 + 2.7 \times 1.7 + 1.7^2)}{(2.7^2 + 2.7 \times 1.7 + 1.7^2)}$$

$$(16) 0.008 + 0.027 - 0.125 + 0.09$$

- | | |
|-------|-------|
| (a) 1 | (b) 5 |
| (c) 2 | (d) 0 |

उत्तर - (d)

व्याख्या -

$$0.008 + 0.027 - 0.125 + 0.09$$

$$= (0.2)^3 + (0.3)^3 + (-0.5)^3 - 3 \times 0.2 \times 0.3 - 0.5 = 0$$

क्योंकि $0.2 + 0.3 + (-0.5) = 0$

Type - (4)

प्रतिशत तथा शिर्नों



पर आधारित

- (17) $12\frac{1}{2} + 12\frac{1}{3} + 12\frac{1}{6}$ का मान क्या है ?
 (a) 36 (b) 37
 (c) 39 (d) 38

उत्तर - (b)

व्याख्या -

$$\begin{aligned} & 12\frac{1}{2} + 12\frac{1}{3} + 12\frac{1}{6} \\ &= 3 \times 12 + \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \right] \\ &= 36 + \left[\frac{3+2+1}{6} \right] \\ &= 36 + \frac{6}{6} = 36 + 1 \Rightarrow 37 \end{aligned}$$

- (18) यदि $2^{x-1} + 2^{x+1} = 320$ तो x का मान है:
 (a) 5 (b) 7
 (c) 6 (d) 8

उत्तर - (b)

व्याख्या -

दिया है

$2^{x-1} + 2^{x+1} = 320$ ($x-1$ और $x+1$ में 2 का अंतर होगा)

$2^{x-1}(1+4) = 320$ (अतः 2^{x-1} common लेने पर)

$$2^{x-1}5 = 320$$

$$2^{x-1} = 64$$

$$2^{x-1} = 2^6$$

घातांकों की तुलना करने पर

$$x-1 = 6$$

$$x = 7$$

- (19) यदि $3^{2x-y} = 3^{x+y} = \sqrt{27}$, तो 3^{x-y} का मान क्या होगा ?
 (a) 3 (b) $\frac{1}{\sqrt{7}}$
 (c) $\sqrt{3}$ (d) $\frac{1}{\sqrt{27}}$

उत्तर - (c)

व्याख्या -

$$3^{2x-y} = 3^{x+y} = \sqrt{27},$$

$$\therefore 3^{2x-y} = 3^{x+y} = 3 \times 3^{1/2}$$

$$3^{2x-y} = 3^{x+y} = 3^{3/2}$$

(घातों की तुलना करने पर)

$$2x-y = \frac{3}{2} \dots \dots \dots (i)$$

(∵ आधार समान हैं, अतः घातें भी बराबर होंगी)

$$\text{तथा } x+y = \frac{3}{2} \dots \dots \dots (ii)$$

अतः (i) एवं (ii) को जोड़ने पर

$$3x = 2 \times \frac{3}{2}$$

$$x = 1$$

x का मान अतः (ii) में रखने पर

$$1+y = \frac{3}{2}$$

$$y = \frac{3}{2} - 1 \Rightarrow \frac{1}{2}$$

$$\therefore 3^{x-y} = 3^{1-\frac{1}{2}} = 3^{\frac{1}{2}} \Rightarrow \sqrt{3}$$

- (20) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} \times \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} \times \left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$ बराबर है-
 (a) -576 (b) 576
 (c) 376 (d) -288

उत्तर - (a)

व्याख्या -

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} \times \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} \times \left(\frac{1}{4}\right)^{-2} \\ &= (2^{-1})^{-2} \times (3^{-1})^{-2} (4^{-1})^{-2} \\ &= 2^2 \times 3^2 \times 4^2 \\ &= 576 \end{aligned}$$

(21) यदि $a = 2^{40}, b = 3^{30}$ तथा $c = 5^{20}$ हो, तो निम्न में कौन सही है ?

- (a) $a < c < b$
- (b) $a < b < c$
- (c) $c < a < b$
- (d) $b < c < a$

उत्तर - (a)

व्याख्या -

$$a = 2^{40} = 2^{8 \times 5} = (2^8)^5 = (256)^5$$

$$b = 3^{30} = 3^{6 \times 5} = (3^6)^5 = (729)^5$$

$$c = 5^{20} = 5^{4 \times 5} = (5^4)^5 = (625)^5$$

स्पष्ट है कि-

$$a < c < b$$

अतः विकल्प (a) सही है।

Type - (5)

समान्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी पर आधारित

समान्तर श्रेणी:- संख्याओं की एक ऐसी शूयी है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, को समान्तर श्रेणी कहते हैं।

समान्तर श्रेणी का n वाँ पद:-

$$a_n = a + (n-1) d$$

जहाँ $n =$ पदों की संख्या

$$\text{प्रथम पद} = a$$

$$\text{शार्व अन्तर} = d$$

समान्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग:-

$$S = \frac{n}{2} [2a + (n-1) \times d]$$

जहाँ $S =$ समान्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग है।

$$a = \text{समान्तर श्रेणी का प्रथम पद है।}$$

$$d = \text{समान्तर श्रेणी का शार्व अन्तर है।}$$

$$n = \text{समान्तर श्रेणी के पदों की संख्या है।}$$

प्रश्न: 22-

अनुक्रम 7, 10, 13..... का 10 वाँ पद ज्ञात कीजिए तथा उभी 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए।

- (A) 34, 205
- (B) 38, 306
- (C) 37, 105
- (D) 89, 30

$$a_n = a + (n-1) d$$

जहाँ,

$$a = 7$$

$$n = 10$$

$$d = (10-7) = 3$$

$$a_{10} \rightarrow 7 + (10-1) \times 3$$

$$\rightarrow 7 + 27 = 34$$

इस श्रेणी के उभी 10 पदों का योग

$$S = \frac{n}{2} [2a + (n-1) d]$$

$$= \frac{10}{2} [2 \times 7 + (10-1) \times 3]$$

$$= 5 [14 + 27]$$

$$= 5 \times 41$$

$$= 205 \text{ Ans.}$$

गुणोत्तर श्रेणी:- किसी श्रेणी के पदों का अनुपात अचर (constant) हो। इस नियत शंख्या को 'शार्व अनुपात' कहते हैं।

$$\rightarrow a, ar, ar^2, ar^3, \dots, ar^{n-1}, ar^n$$

गुणोत्तर श्रेणी का n वाँ पद:-

$$a_n = ar^{n-1}$$

जहाँ n = पदों की शंख्या

a = प्रथम पद

r = शार्व अनुपात

गुणोत्तर श्रेणी का n पदों का योग:-

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \quad \text{when } r > 1$$

$$S_n = an \quad \text{when } r = 1$$

$$S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} \quad \text{when } r < 1$$

जहाँ n = पदों की शंख्या

a = प्रथम पद

r = शार्व अनुपात

प्रश्न:- 23-

गुणोत्तर श्रेणी 5, 10, 20, 40..... का 10 वाँ पद ज्ञात करें तथा उसी 10 पदों का योग ज्ञात करें।

$$(A) 2560, 51115 \quad (B) 2410, 6100$$

$$(C) 2420, 3540 \quad (D) 2700, 5600$$

$$a = 5$$

$$\text{शार्वअनुपात } (r) \rightarrow \frac{a_2}{a} \rightarrow \frac{10}{5} = 2$$

गुणोत्तर श्रेणी का 10 वाँ पद

$$a_n = ar^{n-1}$$

$$a_{10} = 5 \times 2^{(10-1)} = 3$$

$$\rightarrow 5 \times 2^9$$

$$\rightarrow 5 \times 512 = 2560 \text{ Ans.}$$

गुणोत्तर श्रेणी के उभी 10 पदों का योग

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \quad r > 1$$

$$S_{10} = \frac{5(2^{10} - 1)}{2 - 1} \rightarrow 5 \times 1023$$

$$\rightarrow 5115 \text{ Ans.}$$

हरात्मक श्रेणी:- किसी उमान्तर श्रेणी के पदों के व्युत्क्रम से बनी श्रेणी को हरात्मक श्रेणी कहते हैं।

$$\rightarrow \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{a+2d} \cdot \frac{1}{a+3d} \cdots \cdots \cdots \frac{1}{a+nd}$$

प्रश्न:- 24-

हरात्मक श्रेणी $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}, \dots$ का 20 वाँ पद ज्ञात करें तथा 20 पदों का योग ज्ञात करें।

$$(A) 50, 220 \quad (B) 40, 420$$

$$(C) 45, 370 \quad (D) 105, 360$$

हल:-

यहाँ $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}, \dots$ हरात्मक श्रेणी में हैं।

तो $2, 4, 6, 8, \dots$ उमान्तर श्रेणी में होगा।

उमान्तर श्रेणी का n वाँ पद

$$a_n = a + (n-1)d$$

$$a = 2, n = 20, d = 2 \rightarrow 4 - 2 = 2$$

$$a_{20} = 2 + (20-1) \times 2 \quad \text{अतः } \boxed{\frac{1}{a_{20}} = \frac{1}{40}}$$

$$\rightarrow 2 + 38 = 40 \text{ Ans.}$$

क्रमान्तर श्रेणी के n पदों का योग

$$S_n = \frac{n}{2} (2a + (n-1)xd)$$

$$a = 2, n = 20, d \rightarrow 4-2 = 2$$

$$\frac{20}{2} (2 \times 2 + (19)) \times 2$$

$$\rightarrow 10(4+38)$$

$$\rightarrow 420 \text{ Ans.}$$

Type 6 घातांक एवं करणी पर अधारित अन्य प्रश्न

घातांक के उपयोगी यूत्र

1. घातांकीय गुणनफल : $a^m \cdot a^n \cdot a^{1\dots} = a^{(m+n+1+\dots)}$

$$\text{जैसे } x^2 \cdot x^5 \cdot x^3 \cdot x^6 = x^{(2+5+3+6)} = x^{16}$$

2- घातांकीय भाग: $a^m \div a^n = \frac{a^m}{a^n} = a^{(m-n)}$ जैसे $x^{13} \div x^8$ या $\frac{x^{13}}{x^8} = X^{(13-8)} = X^5$

3- घात की घात: $[(a^m)^n]^P = a^{(m.n.1.P\dots)}$ जैसे $[(X^2)^3]^5 = X^{(2 \times 3 \times 5 \times 2)} = X^{60}$

4- गुणनफल की घात : $(a.b.c.\dots)^n = a^n \cdot b^n \cdot c^n \dots$ जैसे $(2.5.7)^3 = 2^3 \cdot 5^3 \cdot 7^3$

5- व्युत्क्रम का नियम:

I. $a^m = \frac{1}{a^{-m}}$ तथा $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ जैसे

$$5^3 = \frac{1}{5^{-3}} \text{ तथा } 2^{-3} = \frac{1}{5^3}$$

II. $\left(\frac{a}{b}\right)^m = \left(\frac{a}{b}\right)^{-m}$ तथा $\left(\frac{x}{y}\right)^{-n}$ जैसे

$$\left(\frac{y}{x}\right)^n \text{ जैसे } \left(\frac{5}{7}\right)^3 = \left(\frac{7}{5}\right)^{-3} \text{ तथा}$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{-5} = \left(\frac{3}{2}\right)^5$$

6- घातांक का शून्य होना: $a^0 = 1$ अर्थात् किसी भी राशि की घात शून्य (0) = 1 जैसे $5^0 = 1, 100^0 = 1, (10050)^0 = 1$ इत्यादि ।

7- व्युत्क्रम घात का नियम:

i. $a^n = b$ तो $a = b^{\frac{1}{n}}$ जैसे $x^3 = 5$ तो $x = 5^{\frac{1}{3}}$

ii. $a^{\frac{1}{n}} = b$ तो $a = b^n$ जैसे $x^{\frac{1}{2}} = 3$
तो $x = 3^2 = 9$

8- $[(a^m)^n]^P \neq a^{mn^P}$

करणी (Surds) – किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम करणी ($\sqrt{}$) है। अर्थात् यदि करणी में कोई संख्या लिखी हो तो उसका अर्थ है – संख्या का मूल ज्ञात करना। करणी के अनेक रूप हैं जैसे $\sqrt{}, 3\sqrt{}, 4\sqrt{}, 5\sqrt{}, \dots, n\sqrt{}$ देखें विभिन्न करणियों के निम्नलिखित रूप –

वर्गमूल $\Rightarrow 2\sqrt{}$ या $\sqrt{} \Rightarrow 2$ घात की करणी $\Rightarrow 2\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}} \Rightarrow \sqrt{16} = 2\sqrt{16} = \sqrt{2.2.2.2} = 2.2 = 4$

घनमूल \Rightarrow Cube root $= 3\sqrt{} = 3$ घात की करणी $\Rightarrow 3\sqrt{x} = x^{\frac{1}{3}} \Rightarrow 3\sqrt{27} = \sqrt[3]{3.3.3} = 3$

चतुर्थमूल \Rightarrow Fourth root $= 4\sqrt{} \Rightarrow 3$ घात की करणी $\Rightarrow 4\sqrt{x} = x^{\frac{1}{4}} = 4\sqrt{256} = 4\sqrt{2.2.2.22.2.2} = 2.2 = 4$

पंचमूल \Rightarrow Fifth root $5\sqrt{} \Rightarrow 5$ घात की करणी $5\sqrt{x} = x^{\frac{1}{5}} \Rightarrow 5\sqrt{3125} = 5\sqrt{5.5.5.5.5} = 5$

षष्ठ मूल \Rightarrow Sixth root $6\sqrt{} \Rightarrow 6$ घात की करणी $6\sqrt{x} = x^{\frac{1}{6}} \Rightarrow 6\sqrt{729} = 6\sqrt{3.3.3.3.3.3} = 3$

n वां मूल \Rightarrow n th root $\Rightarrow n\sqrt{} \Rightarrow n$ घात की करणी $\Rightarrow n\sqrt{x} = x^{\frac{1}{n}}$

प्रश्न –

निम्नलिखित राशियों के मान ज्ञात कीजिए –

$$\text{प्रश्न } 25 - \sqrt{12 + \sqrt{12 + \sqrt{12 + \dots}}} \dots \dots \infty$$

हल: $\sqrt{12 + \sqrt{12 + \sqrt{12 + \dots}}} = 12$ के दो कमागत गुणनखण्डों (4×3) में बड़ा गुणनखण्ड धनात्मक और छोटा गुणनखण्ड ऋणात्मक $= 4, -3$

$$\text{प्रश्न 26} - \sqrt{5 \cdot \sqrt{5 \cdot \sqrt{5 \cdot \sqrt{5}}}} = 5$$

$$\text{हल} - \sqrt{5 \cdot \sqrt{5} \cdot \sqrt{5}} = 5^{\left(\frac{2 \cdot 2 \cdot 2 - 1}{2 \cdot 2 \cdot 2}\right)} = 5^{\frac{(8-1)}{8}} = 5^{\frac{7}{8}}$$

$$\text{प्रश्न 27} - \sqrt{5} \times \sqrt{7} \times \sqrt{3}$$

$$\text{हल} - \sqrt{5} \times \sqrt{7} \times \sqrt{3} = \sqrt{5 \times 7 \times 3} = \sqrt{105}$$

$$\text{प्रश्न 28} - \sqrt{15} \div \sqrt{3}$$

$$\text{हल} - \sqrt{15} \div \sqrt{3} = \sqrt{15 \div 3} = \sqrt{5}$$


$$\text{प्रश्न 29} - \sqrt{35} \div \sqrt{5}$$

$$\text{हल} - \sqrt{35} \div \sqrt{5} = \sqrt{35 \div 5} = \sqrt{7}$$



Unleash the topper in you

संख्या पद्धति (Number System)



इसमें प्रदर्शित किया जा सकता है वर्गमूल क्रणानक संख्याओं का number line में




$$\sqrt{-21}, \sqrt{-1} = i$$

❖ कम्मिश्र संख्याएं Complex Number (z)-
वास्तविक + काल्पनिक

$$Z = a + ib$$

जहां a = वास्तविक संख्या

b = काल्पनिक संख्या



यहाँ शुरू ना तो धनात्मक हैं

गा ही ऋणात्मक हैं

दशमलव संख्याएं

शांत दशमलव:-

वह संख्याएं जो दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद खत्म हो जाये जैसे- इसे 0.25, 0.15, 0.375 इसे भिन्न संख्या में लिखा जा सकता है।

झशांत दशमलव:- वह संख्याएं जो दशमलव के बाद चलते रहते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं।

0.3333, 0.7777, 0.183183183.....

- जो संख्याएं दशमलव के बाद कभी खत्म नहीं होती बल्कि पुनरावृति करती हो, इनमें तका इसी भिन्न में लिखा जा सकता है।

Non
Repeating
Decimal

जो संख्याएं दशमलव के बाद कभी खत्म नहीं होती परं ये अपनी संख्याओं की विशिष्ट पुनरावृति में Repeat नहीं करती।

Platform में प्रदर्शित नहीं कर सकते


उदाहरण- 0.3187098312715.....

$$\sqrt{3}, \sqrt{7}, \sqrt{11}, \pi$$


❖ झशांत पुनरावृति दशमलव संख्याएं :-

1. $0.333\dots = 0.\bar{3} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$
2. $0.666\dots = 0.\bar{6} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$
3. $0.387387387\dots = 0.\overline{387} = \frac{387}{999} = \frac{43}{111}$
4. $0.848484\dots = 0.\overline{84} = \frac{84}{99} = \frac{28}{33}$

वास्तविक संख्याएं



- ❖ परिमेय (Rational) संख्याएँ:- वह संख्याएँ जिन्हें P/Q form में लिखा जा सकता है लेकिन Q जहाँ शून्य नहीं होना चाहिए, P व Q पूर्णांक होने चाहिए
उदाहरण $2/3, 4/5, \frac{10}{-11}, \frac{7}{8}$
- ❖ अपरिमेय (Irrational) संख्याएँ:- इन्हें P/Q form में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता।
उदाहरण $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{11}, \sqrt{19}, \sqrt{26} \dots$
- ❖ प्राकृतिक संख्याएँ \rightarrow धनात्मक संख्याएँ (1, 2, 3.....)
- ❖ पूर्ण संख्याएँ \rightarrow शूद्य+ धनात्मक पूर्णांक (0, 1, 2, 3.....)



- शूद्य भी धन संख्या है।
 - ❖ धन ± धन \rightarrow धन संख्या ($4+6 \rightarrow 10$)
 - ❖ धन ± विषम \rightarrow विषम संख्या ($4+5 \rightarrow 9$)
 - ❖ विषम ± विषम \rightarrow धन संख्या ($3+5 \rightarrow 8$)
- ❖ धन X विषम \rightarrow धन संख्या ($2 \times 3 \rightarrow 6$)
- ❖ धन X धन \rightarrow धन संख्या ($4 \times 4 \rightarrow 16$)
- ❖ विषम X विषम \rightarrow विषम संख्या ($3 \times 3 \rightarrow 9$)



- अभाज्य संख्याएँ- वह संख्या जो शिर्फ 1 व 2वयं संख्या से विभाजित होती है। जैसे- 5 1 × 5 (only गुणनखण्ड)
- भाज्य संख्याएँ- जो संख्याएँ अभाज्य नहीं हैं यानि उनके दो से अधिक गुणनखण्ड होते हैं। जैसे- 9 1 × 3 × 3 (तीन गुणनखण्ड)

- शूद्य ना तो भाज्य ना ही अभाज्य संख्या होती है।
- अभाज्य संख्याएँ (Prime Numbers)- जिनके शिर्फ दो form हो- $1 \times$ संख्या
- जैसे- {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.....}
- जहाँ 1 Prime Number नहीं है।
- 2 केवल धन Prime संख्या है।
- 3, 5, 7 बहुमात्र विषम अभाज्य संख्या का इकलौता जोड़ है।
- 1-50 तक कुल 15 Prime Number हैं।
- 51-100 तक कुल 25 Prime Number हैं।
- अतः 1-100 तक कुल 25 Prime Number हैं।
- शह अभाज्य संख्याएँ- वह संख्याएँ जिनका HCF शिर्फ 1 हो।
- Ex. (4,9), (15, 22), (39, 40)
- $HCF = 1$
- Perfect Number परफेक्ट संख्या:- वह संख्या जिसके गुणनखण्डों का योग उस संख्या के बराबर हो (गुणनखण्डों में द्वयं उस संख्या को छोड़कर)
- Ex. $6 \rightarrow 1, 2, 3$ यहाँ $\rightarrow 1+2+3 \rightarrow 6$
- $28 \rightarrow 1, 2, 4, 7, 14 \rightarrow 1+2+4+7+ \rightarrow 28$

पूर्ण वर्ग संख्याएँ:-

Unit digit वर्ग के हो सकते हैं-

जो नहीं हो सकते

- | | |
|-----------|-------|
| ➤ 0 | 2 — X |
| ➤ 1 | 3 — X |
| ➤ 4 | 7 — X |
| ➤ 5 or 25 | 8 — X |
| ➤ 6 | |
| ➤ 9 | |

- ❖ किसी भी संख्या के वर्ग के अंतिम दो अंक वही होंगे जो 1-24 तक की संख्या के वर्ग के अंतिम दो अंक होते हैं।

गोट:- अतः कभी को 1-25 के वर्ग अवश्य याद होने चाहिए।

उदाहरण- कौनसी दोनों पूर्ण वर्ग होगी-

1. 21904
2. 22903
3. 21917
4. 35405

व्याख्या:- यहाँ unit digit किसी भी वर्ग का 3, 7 नहीं हो सकता और वर्ग के आखिर में 5 आ सकता है लेकिन इकेवा नहीं वह हमेशा 25 होगा

अतः ये विकल्प (1) कही होगा 21904 जो की 148 का वर्ग है।

Q. 1 एक बगीचे में कुल 36562 ग्रमले हैं उन ग्रमलों की अंजावट कर वर्ग बनाना है। तो बताइये इनमें से कितने ग्रमले हटाये जाये की में पूर्व बना लेंगे।

- (a) 36 (b) 65 (c) 81 (d) 97

हल - 36562 में से

- (1) 36 घटाने पर, 26 आखिर में आता है जो किसी भी वर्ग में नहीं होता।
- (2) 65 घटाने पर, 97 जो किसी भी वर्ग में नहीं आता।
- (3) 81 घटाने पर, यही शही अंतर होगा।
- (4) 97 घटाने पर, 65 किसी के आखिर में भी आता 25 आता है हमेशा।

Q. 2 पूर्ण वर्ग दोनों पूर्ण वर्ग कौनसी होगी -

- (A) 17343 - 3 किसी भी वर्ग के इनत में नहीं होता x
 (B) 987235 - 5 से पहले हमेशा 2 होता है x
 (C) 976366 - 6 से पहले हमेशा विषम दोनों पूर्ण वर्ग में x
 (D) 106276 - यह शही होगी।

Binary and decimal में बदलना

Binary दोनों पूर्ण वर्ग के इनत में नहीं होता

$B \rightarrow D$	1 11 "
$0 \rightarrow 0$	2 12 "
$1 \rightarrow 1$	3 13 "
$10 \rightarrow 2$	4 14 "

$11 \rightarrow 3$	5 15 "
$100 \rightarrow 4$	6 16 "
$101 \rightarrow 5$	7 17 "
$110 \rightarrow 6$	8 18 "
$111 \rightarrow 7$	9 19 "
$1000 \rightarrow 8$	10 20 "
$1001 \rightarrow 9$	
$1010 \rightarrow 10$	

Decimal से Binary में बदलना

(51) को Decimal से Binary में बदलना -

2	51	1	Remain
2	25	1	
2	12	0	
2	6	0	
2	3	1	

$$= (110011)_2$$

Q. 1 101 को Binary दोनों पूर्ण वर्ग में प्रदर्शित कीजिए

2	101	1	
2	50	0	
2	25	1	
2	12	0	
2	6	0	
2	3	1	
			1

$$= (1100101)_2$$

Binary से Decimal में बदलना -

दोनों पूर्ण वर्ग को इकाई इकाई से 2^0 से बढ़ते क्रम में गुण का योग करते हैं -

$$\text{इसे} - (1100101)_2 \longrightarrow (?)_{10}$$

यहां $(1100101)_2 \longrightarrow$

$$= 1 \times 2^5 + 1 \times 2^5 + 0 \times 2^7 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

\nearrow \nearrow \nearrow \nearrow

4th place 5th place 2nd place 1st place

$$= 64 + 32 + 0 + 0 + 4 + 0 + 1 = 101 \text{ Ans.}$$

Q. 2 $(1101)_2 \longrightarrow (?)_{10}$

$$\begin{aligned} &= 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \\ &= 8 + 4 + 0 + 1 = 13 \end{aligned}$$

गणितीय शंकियाएं



योगफल तथा अंतर पर आधारित

Q.1 यदि किसी शंख्या में 21 को जोड़ा जाए, तो वह अपनी तिगुनी शंख्या से 7 कम हो जाती है। तदनुसार वह शंख्या कितनी है ?

- | | |
|--------|--------|
| (a) 14 | (b) 16 |
| (c) 18 | (d) 19 |

उत्तर - (a)

व्याख्या -

माना शंख्यां x हैं

प्रश्नानुसार

$$3x - 7 = x + 21$$

$$3x - x = 21 + 7$$

$$2x = 28$$

$$x = \frac{28}{2} \Rightarrow 14$$

Q. 2 यदि किसी शंख्या में $\frac{1}{2}$ जोड़ दिया जाए और फिर उस योगफल को 3 से गुणा किया जाए, तो उत्तर 21 प्राप्त होता है। शंख्या बताइए ?

- | | |
|---------|----------|
| (a) 6.5 | (b) 5.5 |
| (c) 4.5 | (d) -6.5 |

उत्तर - (a)

व्याख्या -

माना शंख्यां x हैं

प्रश्नानुसार

$$\left(x + \frac{1}{2} \right) \times 3 = 21$$

$$\left(\frac{2x + 1}{2} \right) \times 3 = 21$$

$$2x + 1 = 7 \times 2$$

$$2x = 14 - 1 \Rightarrow 13$$

$$x = \frac{13}{2} \Rightarrow 6.5$$

Q.3 किसी शंख्या का मैं 50% को 50 में जोड़ने पर वह उसी शंख्या के बराबर हो जाता है। वह शंख्या है-

- | | |
|---------|---------|
| (a) 50 | (b) 100 |
| (c) 150 | (d) 75 |

उत्तर - (b)
व्याख्या -

माना शंख्यां x हैं

प्रश्नानुसार

$$x \text{ का } 50\% + 50 = x$$

$$x \times \frac{50}{100} + 50 = x$$

$$x - \frac{x}{2} = 50$$

$$\frac{x}{2} = 50$$

$$\therefore x = 100$$

Q. 4 दो अंकों वाली एक शंख्या और उसके छंक उलट देने पर प्राप्त होने वाली शंख्या का योग एक वर्ग शंख्या है। तदनुसार इस प्रकार की कुल शंख्याएं कितनी हैं ?

- | | |
|-------|-------|
| (a) 5 | (b) 6 |
| (c) 7 | (d) 8 |

उत्तर - (d)
व्याख्या -

माना दो अंकों वाली शंख्यां का इकाई अंक y तथा दहाई अंक x हैं।

$$\text{इसलिए शंख्या} = 1x + y$$

$$\text{शंख्या के छंक उलटने पर बनी शंख्या} = 10y + x$$

प्रश्नानुसार

$$(10x + y) = +(10y + x) = \text{वर्ग संख्या}$$

$$11x + 11y = \text{वर्ग संख्या}$$

$$11(x + y) = \text{वर्ग संख्या}$$

यदि $x + y = 11$ रखा जाए तब प्राप्त संख्या, वर्ग संख्या होगी

$$\text{अतः } x + y = 11$$

यदि $x + y = 11$ तब इस प्रकार बनी कुल संख्याएं निम्न हैं

$$x = 1, y = 10 \quad x = 10, y = 1$$

$$x = 2, y = 9 \quad x = 9, y = 2$$

$$x = 3, y = 8 \quad x = 8, y = 3$$

$$x = 4, y = 7 \quad x = 7, y = 4$$

$$x = 5, y = 6 \quad x = 6, y = 5$$

उपरोक्त प्रश्न के अनुसार, कुल 10 संख्याएं बनती हैं परंतु प्रथम जोड़ $x = 1, y = 10$ तथा $x = 1, y = 10$ प्रश्न की शर्तों को संतुष्ट नहीं करता है। अतः इस प्रकार बनी कुल संख्याएं 8 होगी जो निम्नलिखित होंगी— 29,38,47,56 तथा 92,83,74,65

Q. 5 यदि दो संख्याओं के योग का उन संख्याओं से अलग-अलग गुण किया जाए, तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है ?

- | | |
|--------|--------|
| (a) 19 | (b) 20 |
| (c) 21 | (d) 23 |

उत्तर - (a)

व्याख्या -

माना संख्या x एवं y हैं।

तब पहली शर्त से—

$$x(x + y) = 247 \dots\dots\dots(i)$$

दूसरी शर्त से—

$$y(x + y) = 114$$

$$\text{या } (x + y) = \frac{114}{y} \dots\dots\dots(ii)$$

समीकरण (i) से $(x + y)$ का मान समीकरण

(ii) में रखने पर—

$$x \times \frac{114}{y} = 247$$

$$\frac{x}{y} = \frac{247}{114} = \frac{13}{6}$$

$$x + y = 13 + 6 = 19$$

गुणा पर आधारित संक्रियाएं

Q. 6 तीन संख्याओं का अनुपात 3 : 6 : 8 है। यदि उनका गुणनफल 9216 है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या है ?

- | | |
|---------|--------|
| (a) 96 | (b) 72 |
| (c) 144 | (d) 68 |

उत्तर - (d)
व्याख्या -

माना तीनों संख्याएं क्रमशः $3x, 6x$ एवं $8x$ हैं

$$\therefore 3x \times 6x \times 8x = 9216$$

$$x^3 = \frac{9216}{144} \Rightarrow 64$$

$$x^3 = \sqrt[3]{4 \times 4 \times 4} \Rightarrow 4$$

अतः तीनों समीकरणों का योग = $3x + 6x + 8x$

$$= 17x \\ = 17 \times 4 \Rightarrow 68$$

Q. 7 किसी संख्या का मैं $\frac{4}{5}$ भाग उसके $\frac{3}{4}$ से 8 अधिक हो, तो संख्या क्या है ?

- | | |
|---------|---------|
| (a) 130 | (b) 120 |
| (c) 160 | (d) 150 |

उत्तर - (c)
व्याख्या -

माना संख्या x है

प्रश्नानुसार

$$x \text{ का } \frac{4}{5} = x \text{ का } \frac{3}{4} + 8$$

$$\frac{4x}{5} = \frac{3x}{4} + 8$$

$$\frac{16x - 15x}{20} = 8$$

$$\therefore x = 20 \times 8 \Rightarrow 160$$